



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

महिला संबंधी अपराधों में छः वांछित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धी अपराधों की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए एवम् अपराध नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को घटनाओं को रोकने व वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना कमलापुर, रेउसा, इमलिया, मछरेहटा, कोतवाली पुलिस टीमों द्वारा पुलिस द्वारा महिला संबंधी अभियोगों में वांछित कुल छः अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनमें से चार महिला संबंधी अभियोगों में वांछित चार अभियुक्तों को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी। विवरण निम्न प्रकार है-

- थाना कमलापुर पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार - थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 397/20 धारा 354/323/504 भा.द.वि. से संबंधित वांछित अभियुक्त सतीश पुत्र नंदराम रैदास नि0 संधनपुरवा थाना कमलापुर सीतापुर को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गयी है।
- थाना रेउसा पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार-थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 364/20 धारा 354घ/323/504 भा.द.वि. से संबंधित अभियुक्त रजनीश पुत्र शिवकुमार नि0 जमौली थाना रेउसा सीतापुर को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।
- थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार- थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 339/2020 धारा 354क/504 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामप्रकाश यादव पुत्र मूलचंद्र नि0 कचनार

थाना रामकोट जनपद सीतापुर को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गयी है।

- **थाना मछरेहटा पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 293/2020 धारा 294 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज पुत्र नेमपाल नि0 शुक्लापुर थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गयी है।
- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 715/2020 धारा 366/304 भा.द.वि. से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकुर मिश्रा पुत्र शिव प्रकाश मिश्रा नि0 पिपरझला थाना रामकोट जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 665/2020 धारा 363/366 भा.द.वि. से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजा मिश्रा पुत्र देवेन्द्र मिश्रा नि0 पूर्णागिरि थाना कोतवाली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।